

तुरंत रिलीज के लिए

ब्रैम्पटन फायर अब जॉर्ज हिचकॉक बर्सरी के लिए आवेदन स्वीकार कर रहा है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (5 फरवरी, 2021) – फायर सर्विसिज में अपना कैरियर बनाने के इच्छुक निवासियों को, जॉर्ज हिचकॉक मेमोरियल एन्डोमेंट फंड (George Hitchcock Memorial Endowment Fund), जिसे आमतौर पर जॉर्ज हिचकॉक बर्सरी (George Hitchcock bursary) कहा जाता है, के लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज (Brampton Fire and Emergency Services) ने 2014 में, स्वर्गीय डिवीजन चीफ जॉर्ज हिचकॉक (George Hitchcock) के सम्मान में, जॉर्ज हिचकॉक मेमोरियल एन्डोमेंट फंड की शुरुआत की थी। उन्होंने 33 वर्षों तक ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज में सेवा दी थी। उनकी फायर/लाइफ सेफ्टी एजुकेशन डिवीज़न (Fire/Life Safety Education Division) स्थापित करने में मुख्य भूमिका थी, जो हर साल ब्रैम्पटन के हजारों निवासियों को फायर सेफ्टी एजुकेशन प्रदान करने में सहायता करती है। उन्होंने दूसरों को फायर सर्विसिज में कैरियर बनाने के बारे में सोचने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया।

जॉर्ज हिचकॉक बर्सरी, हर वर्ष उन व्यक्तियों के लिए पेश की जाती है, जो फायर सेवाओं में कैरियर बनाना चाहते हैं। यह बर्सरी (वजीफा), सफल आवेदकों की पोस्ट-सेकंडरी ट्यूशन फीस के लिए होती है।

अधिक जानकारी के लिए और आवेदन फार्म प्राप्त करने के लिए, www.bramptonfire.com पर जाएं।

शर्तें

फंड के लिए योग्य होने हेतु, आवेदकों के लिए निम्नलिखित मापदंड पूरा करना आवश्यक है:

- व्यक्ति ब्रैम्पटन का निवासी और कैनैडियन नागरिक हो या कैनैडा में काम करने योग्य हो
- आवेदक, फायर-संबंधी प्रोग्राम में ओनटैरियो पोस्ट-सेकंडरी स्कूल (Ontario Post-Secondary School) डिप्लोमा कर रहा हो
- आवेदक के लिए आवेदन फार्म में सूचीबद्ध शर्तों को पूरा करना आवश्यक है
- आवेदकों के लिए फार्म जमा करने की अंतिम तारीख तक फार्म जमा करना आवश्यक है
- इंटरव्यू की प्रक्रिया के बाद, सफल आवेदकों के लिए ओनटैरियो पोस्ट-सेकंडरी स्कूल प्रोग्राम के लिए स्वीकृति का प्रमाण देना आवश्यक है

प्रक्रिया

आवेदन फार्म ऑनलाइन www.bramptonfire.com पर उपलब्ध हैं और ये firelife@brampton.ca पर जमा किए जाने चाहिए। आवेदन की अवधि 1 अप्रैल, 2021 को या 30 आवेदन मिलने पर समाप्त होगी।

चुने गए उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया जाएगा और एक आवेदक को 1,000 डॉलर तक के मूल्य की बर्सरी के लिए चुना जाएगा, जिसका भुगतान सीधा कोर्स में दाखिले के लिए किया जाएगा।

हवाले

“मैं फायर सर्विसिज में अपना कैरियर बनाने के इच्छुक, योग्य ब्रैम्पटन निवासियों को प्रोत्साहित करता हूँ कि वे जॉर्ज हिचकॉक बर्सरी के लिए आवेदन करें। ब्रैम्पटन एक स्वस्थ और सुरक्षित शहर है और हमारी फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज की टीम, यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि हमारा समुदाय सुरक्षित है। सिटी को हर वर्ष ऐसे व्यक्तियों को सहायता देने पर गर्व है, जो बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध हो।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज का स्टाफ, हमारे समुदाय की रक्षा करने और लोगों तथा प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखने के लिए बिना थके काम करता है। हम फायर सर्विसिज में कैरियर के प्रति काम करने वाले सभी लोगों की सराहना करते हैं और ब्रैम्पटन के योग्य निवासियों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे, जॉर्ज हिचकॉक मेमोरियल एन्डोमेंट फंड के लिए आवेदन करें।”

- रोएना सैंटोस (Rowena Santos), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; चेयर, कम्युनिटी सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“डिवीज़न चीफ जॉर्ज हिचकॉक के अंदर फायर सर्विसिज, फायर और जीवन सुरक्षा संबंधी शिक्षा को लेकर बहुत जोश था। यह बर्सरी, उनके द्वारा ब्रैम्पटन फायर में किए बहुमूल्य योगदानों के विरसे के तौर पर पेश की जाती है। हम, शानदार सेवा की परंपरा को कायम रखने के आकांक्षी फायरफाइटर्स की अगली पीढ़ी की सहायता करने के लिए उत्साहित हैं।”

- बिल बोइस (Bill Boyes), चीफ, ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज

“हमारी ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज की टीम, टर्म ऑफ काउंसिल की प्रायरीटी कि ब्रैम्पटन एक स्वस्थ और सुरक्षित शहर है, को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फायर सर्विसिज में अपना कैरियर बनाने के इच्छुक उन निवासियों को, जो अपने समुदाय को सुरक्षित रखना चाहते हैं, जॉर्ज हिचकॉक बर्सरी हेतु आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

गुरविंदर सिंह (Gurvinder Singh)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca